

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर 2015—अग्रहायण 3, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक-बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 19 नवम्बर 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला उज्जैन की नागदा के रा.नि.म. उन्हेल 23 से 67 प.ह.नं. 36 से 73 तक पूर्व में अधिसूचित के स्थान पर तहसील बड़नगर रा.नि.म. क्र. 2 बलेडी प.ह.नं. 36 से 73 तक सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित कर मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी. इसमें पुनः संशोधन कर पटवारी हल्कों की सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तदनुसार मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची  
जिला उज्जैन**

मौसम खरीफ वर्ष 2015-2016 100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची :-

जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
उज्जैन	बड़नगर	2-बलेड़ी	36	अमलावदकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			37	बालोदा हसन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			38	दुनालजा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			39	हरनावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			40	उकारपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			41	सिजावता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			42	गांवड़ीलोधा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			43	धुरेरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			44	सरसाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			45	सुनेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			46	किलोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			47	नरसिंगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			48	दंगवाड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			49	बलेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			50	घुड़ासन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			51	झुमकी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			52	पात्याखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			53	जहांगीरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			54	मालपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			55	अमलावदबीका	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			56	पलसोड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			57	मकड़ावन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			58	महुड़ीआलम	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			59	सुवासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			60	कंजड़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			61	असलावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			62	कोठड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			63	नारेलांकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			64	रूपाहेड़ा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			65	बमनापाती	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			66	खड़ोतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			67	कुलावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			68	मनियावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			69	इंगोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			70	चिकली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			71	कढाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			72	निम्बोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			73	घड़सिंगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-